




# अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र के साथ सुरक्षित मतदान करें

California के सभी मतदाताओं को **3 नवम्बर, 2020** चुनाव के लिए डाक-द्वारा-मत मतपत्र मिलेगा। आपका काउंटी चुनाव कार्यालय **5 अक्टूबर, 2020** से शुरू करते हुए नीचे दिखाई गई तस्वीर जैसे मतपत्रों को भेजना शुरू करेगा।



## डाक द्वारा मतदान सुरक्षित और आसान है।

अपने मतपत्र पर अपने विकल्पों को चिन्हित करने के बाद, बस सिर्फ:



### इसे सील करें।

अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से प्राप्त लिफाफे में अपने मतपत्र को सुरक्षित करें।



### इस पर हस्ताक्षर करें।

सुनिश्चित करें कि आपके मतपत्र लिफाफे पर हस्ताक्षर आपके CA ड्राइवर लाइसेंस/राज्य पहचान पत्र, या आपके द्वारा पंजीकृत करते समय प्रदान किए गए हस्ताक्षर से मेल खाते हैं। आपका काउंटी चुनाव कार्यालय आपके मतदान की सुरक्षा के लिए उनका मिलान करेगा।



### इसे वापस भेजें।

डाक से—सुनिश्चित करें कि आपके मतपत्र पर **3 नवंबर, 2020** तक डाक-घर की मुहर लगी हो। कोई डाक-टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है!

या

व्यक्तिगत रूप से—किसी सुरक्षित ड्रॉप बॉक्स, मतदान स्थल, मतदान केंद्र, या काउंटी चुनाव कार्यालय में **3 नवंबर, 2020 को शाम 8:00 बजे** तक अपना मतपत्र पहुंचा दें।



### इसकी स्थिति का पता लगाएँ।

आप अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र की स्थिति के बारे में टेक्स्ट (एसएमएस), ईमेल, या वॉयस कॉल द्वारा अलर्ट के लिए [wheresmyballot.sos.ca.gov](http://wheresmyballot.sos.ca.gov) पर साइन अप कर सकते हैं।

वे मतदाता जो डाक से मतदान कर सकते हैं, वे मतदान स्थलों पर सुरक्षित शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। चुनाव दिवस से पहले मतदान स्थल सभी काउंटियों में उपलब्ध रहेंगे। मतदान स्थलों पर मतदाता पंजीकरण, प्रतिस्थापक मतपत्र, सुगम मतदान मशीनें और भाषा सहायता की पेशकश की जाएगी।



# प्रारंभिक मतदान स्थलों पर सुरक्षित मतदान करें

अनेक काउंटियों में एक या उससे अधिक प्रारंभिक मतदान स्थल **3 नवंबर, 2020** के चुनाव से पहले के शनिवार से शुरू करते हुए **कम से कम चार दिनों** के लिए उपलब्ध रहेंगे। मतदान स्थलों पर मतदाता पंजीकरण, प्रतिस्थापक मतपत्र, सुगम मतदान मशीनें और भाषा सहायता की पेशकश की जाएगी।

**आप मतदान स्थलों को** मतदाताओं और चुनाव कर्मियों के लिए इन तीन तरीकों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं:

1

## लाइन में लगने से बचें।

आप पूरे किए गए मतपत्रों को **डाक द्वारा** बिना डाक-टिकट लगाए, एक सुरक्षित **मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं** या किसी **मतदान स्थल** पर वापस डाल सकते हैं। पूरे किए गए मतपत्रों को डालने के लिए मतदाताओं के लिए मतदान स्थलों पर अलग लाइनें लगी होंगी।



मतदान स्थल के लिए नजदीकी ड्रॉप-बॉक्स [CAEarlyVoting.sos.ca.gov](http://CAEarlyVoting.sos.ca.gov) पर ढूंढें

2

## जल्दी मतदान करें।

यदि आप किसी मतदान स्थल पर व्यक्तिगत रूप से आते हैं, तो शारीरिक दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए **चुनाव दिवस से पहले जाएँ**। बहुत सी काउंटियों में एक या ज्यादा मतदान स्थल चुनाव दिवस के पहले रविवार से शुरू करते हुए **कम से कम चार दिनों** के लिए खुले रहेंगे।

3

## सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें।

मतदान स्थलों पर निम्न पूर्व-सावधानियों को अपनाकर अपने स्वास्थ्य और अन्य मतदाताओं और चुनाव कर्मियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें:

### मतदान स्थल सुरक्षा जांचसूची

- मतदान स्थल पर होने के दौरान **फेस कवरींग पहनें**।
- अन्य लोगों से **2 हाथ की दूरी रखें**।
- मतदान स्थल में प्रवेश करने से पहले और उसके बाद **हाथों को धोएँ**।
- दरवाजों या मतदान उपकरणों को छूने के बाद **हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें**।
- उच्च संपर्क सतहों को छूने से बचने के लिए अपने साथ **बॉल प्वाइंट पेन लाएँ**।



**मतदान करते समय सुरक्षित रहने के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं?**

[www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html](http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html)  
पर रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र के दिशानिर्देशों की समीक्षा करें

**वे मतदाता जो डाक से मतदान कर सकते हैं, वे मतदान स्थलों पर सुरक्षित शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।** काउंटी मतदान कार्यालय **5 अक्टूबर, 2020** से California वासियों को डाक-द्वारा-मत मतपत्र भेजना शुरू करेंगे। डाक द्वारा लौटाए गए मतपत्र **3 नवंबर, 2020** तक पोस्टमार्क होने ज़रूरी हैं; सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स पर आए मतपत्र **3 नवंबर, 2020 के शाम 8:00 बजे तक** अवश्य जमा कर दिए जाने चाहिए।